



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

9 अग्रहायण 1934 (श0)  
(सं0 पटना 641) पटना, शुक्रवार, 30 नवम्बर 2012

---

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

-----  
अधिसूचना

29 नवम्बर 2012

सं0 नि०प्रा०/नि० 1-22/2012/10008—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14(क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बाधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति, लोदीपुर, प्रखंड-जगदीशपुर, जिला-भागलपुर का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

और, चूँकि उक्त प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति में अध्यक्ष सहित प्रबंधकारिणी कमिटी के 10 (दस) सदस्यों का निर्वाचन कराया जाना है।

और, चूँकि प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति की मानक उपविधियों के अनुसार पहले समिति के 10(दस) सदस्यों का सीधे निर्वाचन कराया जायेगा, एवं तत्पश्चात् निर्वाचित सदस्य अपने बीच में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेंगे।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **परिशिष्ट-1** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति, लोदीपुर, जगदीशपुर की प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु, सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 28.12.2012 एवं उक्त

समिति के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में **परिशिष्ट-3** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 29.12.2012 की तिथि नियत करता है तथा संबंधित प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति के मतदाताओं/ निर्वाचित सदस्यों से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन अपने-अपने प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या 9863 दिनांक 18.10.2012 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ-तिथि 31.08.2012 निर्धारित की गयी है।

संबंधित प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति के निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 01.12.2012 को संलग्न प्रपत्र-1 (**परिशिष्ट-3**) में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों का निर्वाचन संपन्न हो जाने के पश्चात् **परिशिष्ट-2** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचित सदस्य अपने बीच में से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेंगे।

प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदान का समय सुबह 7 बजे से अपराह्न 2 बजे तक होगा। मतगणना मतदान समाप्ति के पश्चात् उसी दिन सुविधानुसार अपराह्न 3-4 बजे से शुरू की जायेगी। अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु मतदान का समय अधिसूचित तिथि को 3 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न तक रखा गया है।

आदेश से,  
एन० एस० माधवन,  
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

#### परिशिष्ट-1

#### प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति का निर्वाचन, 2012 प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन	-	01.12.2012 (शनिवार)
(ii)	नामांकन की तिथि	-	17.12.2012 (सोमवार)
(iii)	संवीक्षा की तिथि	-	18.12.2012 (मंगलवार)
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	-	19.12.2012 (बुधवार)
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	-	28.12.2012 (शुक्रवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	-	28.12.2012 (अपराह्न 3-4 बजे से)

**परिशिष्ट-2**
**प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति निर्वाचन**
**प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति का निर्वाचन, 2012**
**अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम**

(i)	निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन	-	01.12.2012 (शनिवार)
(ii)	नामांकन की तिथि	-	29.12.2012 (शनिवार) 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्याह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि	-	29.12.2012 (शनिवार) 12.01 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	-	29.12.2012 (शनिवार) 2 बजे अपराह्न से 2.15 बजे अपराह्न
(v)	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की घोषणा	-	29.12.2012 (शनिवार) 3 बजे अपराह्न
(vi)	मतदान, अगर आवश्यक हो	-	29.12.2012 (शनिवार) 3 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न
(vii)	मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा	-	29.12.2012 (शनिवार) मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात्

**परिशिष्ट-3**
**प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति निर्वाचन**
**प्रपत्र-1**
**प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु सूचना का प्रपत्र**

जिला ....., प्रखंड.....के प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति ....., निबंधन संख्या....., पता .....के प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों एवं अध्यक्ष का निर्वाचन दिनांक .....को किया जाना है,

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

**आम सूचना**

1. (i) प्रबंधकारिणी समिति के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 है, जिसका विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	10 (अनारक्षित)

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता

(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

(स्थान का नाम)

है। नामांकन पत्र दिनांक ..... 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तक .....बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं 3 बजे तक चलती रहेगी।  
(स्थान का नाम)

तक चलती रहेगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न ..... बजे के पूर्व तक .....पर  
(स्थान का नाम)

दाखिल की जा सकती है।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक ..... को 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक होगा।

(vii) मतगणना दिनांक.....को .....बजे से.....पर की जायेगी।

(स्थान का नाम)

2. निर्वाचन कराये गये प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति की प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचित सदस्य दिनांक 29.12.2012 (शनिवार) को अपने बीच में से एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जिसके लिए नामांकन की तिथि एवं अवधि 29.12.2012 को 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्याह्न तक होगी, संवीक्षा की अवधि 12.01 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक होगी, अभ्यर्थिता वापसी की अवधि 2 बजे अपराह्न से 2.15 बजे अपराह्न तक होगी, मतदान अगर आवश्यक हो तो उसी दिन 3 बजे से 4 बजे अपराह्न के बीच कराया जायेगा एवं मतदान की समाप्ति के पश्चात् मतगणना का कार्य पूरा किया जायेगा एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जायेगी।

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

\* जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

\* अगर एक प्रखंड में एक से अधिक प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों का निर्वाचन हो रहा है, तो प्रत्येक समिति के लिये अलग-अलग प्रपत्र-1 निर्गत किया जायेगा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 641-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>